




भारत का राजपत्र The Gazette of India



असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड I

PART I—Section I

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 9] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 12, 1978/पौष 22, 1899

No. 9] NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 12, 1978/PAUSA 22, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 12 जनवरी, 1978

सं. प्रतिअवाचगी/सा.सू. 1/78.—सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क प्रतिअवाचगी नियमावली, 1971, (भारत के राजपत्र, असाधारण, दिनांक 25 अगस्त, 1971 में प्रकाशित अधिसूचना सं. 52/प्र. सं. 602/2/70 प्र. अ.) के नियम 4 के अधीन केन्द्रीय सरकार समय-समय पर यथासंशोधित सार्वजनिक सूचना सं. प्रतिअवाचगी/सा.सू. 1, दिनांक 15 अक्टूबर, 1971 में प्रकाशित सारणी में एतद्वारा, निम्नीलिखित संशोधन करती है :—

1. उपक्रमांक 2502 की भद् (क) के नीचे के वर्तमान परन्तुकों का निम्नप्रकार से प्रतिस्थापित किया जाएगा:—

“प्रशर्त” संसुओं पर अदा किये गये शुल्क पर, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियमावली, 1944 के अन्तर्गत कोई रिबंट नहीं लिया गया हो।”

2. उपक्रमांक 2503 की मद (ग) के नीचे के वर्तमान परन्तुकों को निम्नप्रकार से प्रतिस्थापित किया जाएगा :—

"परन्तु यह तब जब गीठ संश्लिष्ट तंतु, अंतर्वस्तु के कारण उक्त दरों पर प्रति अदायगी तभी अनुमत्य होगी यदि निर्माता/निर्यातकर्ता जहाज में लदान के समय यह घोषणा करे कि—

(क) उपर्युक्त मद (ड.) तथा (च) में उल्लिखित प्रयुक्त धागा वस्टेड है।

(ख) तंतुओं पर अदा किये गये शुल्क पर, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियमावली, 1944 के अन्तर्गत कोई रिबेट नहीं लिया गया है।

के. सी. ममगाई, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 12th January, 1978

No. DRAWBACK/PN-1/78.—Under rule 4 of the Customs and Central Excise Duties Drawback Rules, 1971 (Notification No. 52/F. No. 602/2/70-DBK published in the Gazette of India, Extra-ordinary, dated the 25th August, 1971), the Central Government hereby makes the following amendments in the Table published in the Public Notice No. DRAWBACK/PN-1 dated the 15th October, 1971, as amended from time to time :—

1. The existing provisos under item (A) of sub-serial No. 2502 may be substituted as under :—

"Provided no rebate of duty paid on fibres has been obtained under the Central Excise Rules, 1944".

2. The existing provisos under item (C) of sub-serial No. 2503 may be substituted as under :—

"Provided that the drawback at the above rates on account of synthetic fibre content may be admissible only if the manufacturer/exporter at the time of shipment declares that—

(a) the yarn used under item (e) and (f) above is worsted.

(b) no rebate of the duty paid on fibres has been obtained under the Central Excise Rules, 1944".

K. C. MAMGAIN, Under Secy.